

## आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला—कबीरधाम (छ.ग.)

स्व  
हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साईज  
फोटो

आपका विज्ञापन दिनांक ..... में विज्ञापित पद (पद का नाम) .....  
के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :

2. पिता/पति का नाम :

3. माता का नाम :

4. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) : वर्ष ..... माह ..... दिनांक .....

(ब) आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में : वर्ष ..... माह ..... दिन .....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. जाति (सामान्य/अजा/अ.ज.जा/अ.पि.व.) :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. लिंग (पुरुष/महिला अन्य) :

7. छ.ग. का मूल स्थानीय निवासी है या नहीं :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं :

8.1 विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :

8.2 भूतपूर्व सैनिक हॉ/नहीं :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. स्थायी निवास का पता :

10. वर्तमान पत्र व्यव्हार का पता :

मोबाइल नं.: ..... दूरभाष नं. ....

ई—मेल आईडी:.....

कमश:

## 12. आवेदक शुल्क -

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह 25000 से कम आय के पदों के लिये	मानदेय प्रतिमाह 25000 एवं 25000 से अधिक आय के पदों के लिये
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा.	100 रु.	200 रु.
महिला	100 रु.	200 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग	200 रु.	300 रु.
अनारक्षित संवर्ग	300 रु.	400 रु.

(आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से DISTRICT HEALTH SOCIETY, KAWARDHA के नाम से डिमाण्ड ड्राप्ट जो कि कवर्धा में देय होगा, डिमाण्ड ड्राप्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राप्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा)

13. बैंक ड्राप्ट का विवरण : डी.डी. कमांक ..... दिनांक .....

बैंक का नाम ..... राशि.....

14. शैक्षणिक योग्यता :- वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)

शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत / अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

15. अनुभव:- पद अनुसार चाही गयी वांछित अनुभव का ही विवरण भरा जावे)

निजी संस्था या अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

क्र.	संस्थान का नाम	पदनाम	कुल अनुभव	कार्य विवरण

16. क्या आप विवाहित हैं। (हॉ / नहीं) :

17. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों की सूची व संख्या :-

- 1. दसवी एवं बारहवी की अंकसूची
- 2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर / वर्षों का)
- 3. भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
- 4. संबंधित कौसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र
- 5. जाति प्रमाण पत्र स्थायी / सत्यापित
- 6. विकलांग प्रमाण पत्र जीवित
- 7. मूल निवास प्रमाण पत्र
- 8. बैंक ड्राप्ट की मूलप्रति
- 9.अनुभव / अन्य

#### घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी रिथ्ति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :.....

दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पूर्ण पता.....